



https://printo.it/pediatric-rheumatology/IN_HI/intro

लाइम गठिया

के संस्करण 2016

1. लाइम गठिया क्या है

1.1 यह क्या होता है?

यह बीमारी बोर्रेलिया बुरगडोरफेरी (लाइम बोर्रेलओसिस) नामक कीटाणु से होती है, यह कीटाणु टिकि के काटने से फैलता है, जिसमें से एक टिकि एक्सोडस रीसेनस है। इस बीमारी में जोड़ खास तौर से प्रभावित होते हैं, व त्वचा, हृदय, आँखें, केंद्रीय मज्जा तंत्र व अन्य अंगों पर भी इस का प्रभाव पड़ सकता है। त्वचा पर टिकि के काटने की जगह पर फैलने वाली लाली आ जाती है जिसे एरथिमा माइग्रेन्स कहते हैं। कुछ लोगों में यदि इस का इलाज नहीं किया जाये तब यह केंद्रीय मज्जा तंत्र को भी प्रभावित कर सकती है।

1.2 यह बीमारी कतिनी आम है?

बहुत कम बच्चों में लाइम गठिया देखा जाता है। यूरोप में कीटाणु के काटने से होनी वाले सभी गठिया रोगों में यह सबसे ज्यादा देखा जाता है खास कर बच्चों व किशोरों में। यह आमतौर से ४ वर्ष की आयु के बाद ही देखा जाता है इसीलिए यह बीमारी अधिकतर स्कूल जाते बच्चों में देखी जाती है।

यह बीमारी पूरे यूरोप में देखी जाती है पर मध्य यूरोप व बाल्टिक सागर के पास दक्षिणी स्कैंडेनेविया में अधिक देखी जाती है। वातावरण के तापमान व उमस के अनुसार प्रभावित टिकि के काटने का समय अप्रैल से अक्टूबर तक प्रायः देखा जाता है व इसी समय इस बीमारी का संक्रमण अधिक होता है। यह बीमारी किसी भी समय आरम्भ हो सकती है क्योंकि टिकि के काटने व जोड़ में सूजन आने के बीच में थोड़ा समय लगता है।

1.3. यह बीमारी कनि कारणों से होती है?

यह बीमारी बोर्रेलिया बुरगदोरफेरी नामक एक कीटाणु के संक्रमण से होती है। यह कीटाणु एक्सोडस रसिनिस नामक एक टिकि के काटने के द्वारा संक्रमित होता है। प्रत्येक टिकि इस कीटाणु के द्वारा संक्रमित नहीं होती है। इसलिए प्रत्येक टिकि के काटने से यह बीमारी नहीं

होती।कई बार टिकि के काटने से सर्फ लाली आ जाती है जसि एरथिमा माइग्रेन्स कहते है। कई बार बीमारी इस के आगे नहीं बढ़ती।ऐसा खास तौर पर तब भी होता है जब पहले ही चरण में एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा इलाज कर दिया जाता है।इसीलिए हालाँकि एरथिमा माइग्रेन्स १ में १००० बच्चों में देखा जा सकता पर इसके द्वारा होने वाला लाइम गठिया, जो आखिरी चरण में होता है,बहुत कम बच्चों में देखा जाता है।

1.4 क्या यह एक अनुवांशिक रोग है?

लाइम गठिया एक संक्रामक रोग है,अनुवांशिक नहीं।कभी कभी ऐसा रोग देखने में आता है जसिमे अंटोबायोटिक दवाएं काम नहीं करती।इसमें कुछ अनुवांशिक तत्वों के कारणवश ऐसा हो सकता है पर इस वषिय में पूरी जानकारी अभी नहीं है।

1.5 मेरे बच्चे को यह बीमारी क्यों हुई?क्या इससे बचाव किया जा सकता है?

जनि यूरोपियन जगहों पर यह टिकि पायी जाती है,वहां इस की रोकथाम कर पाना अत्यन्त कठिन है।कीटाणु को टिकि के अंदर जा कर थूक की ग्रंथितक पहुँचने में समय लगता है,यदि टिकि उससे पहले काट ले तब यह कीटाणु संक्रमति नहीं हो पाता।टिकि मानव शरीर पर चपिक जाती है व ३-४ दिन तक मानव का खून चूसती है।यदि बच्चों को गर्मी के मौसम में रोज ठीक से देखा जाये व टिकि को खोज कर निकल दिया जाये तब इस बीमारी के होना का खतरा काफी कम हो जाता है।रोकथाम के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करना ठीक नहीं है। हालाँकि जब एरथिमा माइग्रेन्स होता है तब उसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं के द्वारा तुरंत किया जाना चाहिए।इससे कीटाणु आगे पनप नहीं पायेगा व लाइम गठिया नहीं होगा।अमेरिका में इसके संक्रमण को रोकने के कयि टीकाकरण शुरू किया गया था परंतु अधिकी कीमत होने के कारन उसको वापस ले लिया गया।कीटाणु के प्रकार में भिन्नता होने के कारन यह टीकाकरण यूरोप में कामयाब नहीं था।

1.6 क्या यह छूत की बीमारी है?

हालाँकि यह एक संक्रामक रोग है पर यह छूत की बीमारी नहीं है(मतलब यह एक मनुष्य से दूसरे को नहीं हो सकती)क्योकि यह कीटाणु सर्फ टिकि के द्वारा कटे जाने पर ही मनुष्य के शरीर में पहुचता है।

1.7 इसके प्रमुख लक्षण क्या है?

इस बीमारी के प्रमुख लक्षण जोड़ में सूजन व प्रभावति जोड़ की हलिनने की क्षमता में कमी आना होती है।कई बार जोड़ में सूजन बहुत अधिक होती है परंतु दर्द इतना अधिक नहीं होता।खुटने में सबसे अधिक प्रबह्व देखा जाता है,हालाँकि अन्य बडे जोड़ों में भी इसका प्रभाव देखा जाता है,पर ऐसा बहुत कम होता है की घुटनो में कोई सूजन न हो।२/३ लोगों में अकेली एक ही घुटने की सूजन पाई जाती है।९५% से अधिक लोगों में आम तौर से ४ जोड़ों से

कम जोड़ प्रभावति होते हैं और समय के साथ सरिफ घुटने में प्रभाव रह जाता है। २/३ लोगों में रुक रुक कर आता है (गठिया अपने आप कुछ सप्ताह में चला जाता है व कुछ अंतराल के बाद अपने आप ही वापस आ जाता है)

समय के साथ जोड़ों में सूजन का क्रम कम होता जाता है व एक जोड़ में सूजन की अवधि भी कम होती जाती है। पर कुछ लोगों में यह एक दीर्घकालीन गठिया का रूप ले लेता है। कुछ लोगों में यह रुक रुक कर आने की जगह एक की जोड़ में तीन माह से अधिक अवधि के किये आ जाता है।

1.8 क्या प्रत्येक बच्चे को एक सी बीमारी होती है?

नहीं। यह बीमारी तीव्र हो सकती है (एक ही बार तीव्र गठिया होना), रुक रुक कर आने वाली हो सकती है अथवा दीर्घकालीन हो सकती है। अधिकतर ऐसा देखा गया है की छोटे बच्चों में यह बीमारी तीव्र होती है व कशिरों में अधिकाँश दीर्घकालीन होती है।

1.9 क्या बच्चों में यह बीमारी वयस्कों से भिन्न होती है?

बच्चों व वयस्कों में एक सी ही बीमारी देखि जाती है। हालाँकि बच्चों में गठिया होने की सम्भावना अधिक होती है। परंतु छोटी आयु के बच्चों में बीमारी तीव्रता से आती है व दवाओं का असर ज़्यादा जल्दी और सफल होता है।